

तुरंत रिलीज के लिए

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, अक्टूबर को स्मॉल बिजनेस मंथ के तौर पर मना रही है

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (1 अक्टूबर, 2021) – अक्टूबर स्मॉल बिजनेस मंथ (Small Business Month) है और सिटी ऑफ ब्रैम्पटन उन लोकल उद्यमियों का जशन मना रही है, जिनके विचार, जोश और दृढ़ संकल्प, कम्युनिटी को प्रतिस्पर्धात्मक और खुशहाल बनाने में मदद करते हैं।

पूरे अक्टूबर में इकोनॉमिक डिवेलपमेंट ऑफिस (Economic Development Office) के हिस्से के तौर पर ब्रैम्पटन एंटरप्रीनियर सेंटर (बेक) (Brampton Entrepreneur Centre) (BEC), मार्केटिंग, डिज़ाइन टूल्स, बुककीपिंग, इन्कार्पोरेंटिंग जैसे विषयों को शामिल करते हुए, लोकल कारोबार कम्युनिटी के लिए वर्चुअल (आभासी) प्रोग्रामिंग और नेटवर्किंग कार्यक्रमों के पूरे शेड्यूल की मेज़बानी कर रहा है। विवरण और कार्यक्रम रजिस्ट्रेशन www.brampton.ca/BEC पर देखी जा सकती है।

इसके अलावा, अक्टूबर में और स्मार्ट बिजनेस मंथ के सम्मान में बेक (BEC), बिजनेस माइलस्टोन प्रोग्राम (Business Milestone Program) की शुरुआत भी कर रहा है। दस या इससे कम कर्मचारियों वाले छोटे कारोबार, जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान नेतृत्व किया है और लचीलापन दर्शाया है, और इस वर्ष वर्षगांठ या मील पत्थर मना रहे हैं या कुछ खास या विलक्षण कर रहे हैं, उन्हें bec@brampton.ca पर बेक के साथ अपनी कहानी शेयर करने के लिए आमंत्रित किया गया है।

जिन दस या कम कर्मचारियों वाले छोटे कारोबारियों ने कोविड-19 (COVID-19) के महामारी के दौरान शुरुआत की और स्थिरता दर्शाई है, जो सालगिरह या उपलब्धि का जशन मना रहे हैं या कुछ खास या बेजोड़ कर रहे हैं, उन्हें bec@brampton.ca पर बेक के साथ अपनी कहानी साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

सफल छोटे कारोबारी, बहुमूल्य शहर, नौकरियां पैदा करने, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने और लोकल नेबरहुड में वृद्धि करने के लिए ज़रूरी हैं। कोविड-19 ने ब्रैम्पटन की कम्युनिटी और शहरों के महत्वपूर्ण हिस्से - छोटे कारोबारियों - पर बहुत बड़ा असर डाला है।

निवासियों को लोकल वस्तुओं की पड़ताल, चयन करने और खरीदने तथा निम्नलिखित सुझावों पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है:

- लोकल कारोबारियों की हिमायत करने और सोशल मीडिया पर अपनी मनपसंद जगहों का प्रचार करने के बारे में सोचें! ब्रैम्पटन के छोटे कारोबारियों की पूरी सूची के लिए [सपोर्ट लोकल ब्रैम्पटन वेबसाइट \(Support Local Brampton website\)](#) पर जाएं। दूसरों को बताने हेतु उनके लिए ऑनलाइन रिव्यू दें। सोशल मीडिया खातों के द्वारा लोकल कारोबारियों के साथ जुड़ें

और स्पॉर्ट लोकल (Support Local) ग्राफिक और हैशटैग #SupportLocalBrampton का प्रयोग करते हुए ब्रैम्पटन के कारोबारियों के लिए सहयोग दर्शाएं। स्पॉर्ट लोकल मीडिया पैक [यहां से \(here\)](#) डाउनलोड किया जा सकता है।

- ब्रैम्पटन फूड गाइड (Brampton Food Guide) के साथ ब्रैम्पटन में खाने-पीने की सभी अच्छी जगहों की पड़ताल करें। अपनी प्रति [यहां से \(here\)](#) डाउनलोड करें।
- अपनी पसंदीदा लोकल दुकानें खुली हैं, अपनी वैक्सीन रसीद दिखाएं और जिम, हेयर सैलून, इनडोर डाइनिंग के लिए रेस्टोरेंट्स तक आसानी से और सुरक्षित रूप से पहुंचने के लिए मास्क लगाएं!
- दोस्तों और परिवार को वहां जाने के लिए कहें।

लोकल की हिमायत करने के बारे में अधिक जानकारी के लिए, [स्पॉर्ट लोकल ब्रैम्पटन वेबसाइट \(Support Local Brampton website\)](#) पर जाएं।

इकोनॉमिक रिकवरी स्ट्रैटजी और स्पॉर्ट लोकल

महामारी की शुरुआत से ही सिटी अपनी छोटे कारोबार कम्युनिटी की बहाली और स्थिरता की हिमायत करने के लिए प्रतिबद्ध रही है। मई 2020 में, ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल (Brampton City Council) ने लोकल अर्थव्यवस्था को पुनः बहाल करने की ओर आगे बढ़ने के लिए, ब्रैम्पटन की [इकोनॉमिक रिकवरी स्ट्रैटजी \(Economic Recovery Strategy\)](#) की हिमायत की थी। इस स्ट्रैटजी का उद्देश्य चार ज़रूरी चीज़ों: नवीनता, टेक्नोलॉजी और एंटरप्रीनियरशिप, निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और कला, संस्कृति और टूरिज़्म के साथ तुरंत और लंबी अवधि की कार्रवाइयों को आगे बढ़ाकर, ब्रैम्पटन की अर्थव्यवस्था के लिए स्थिरता और इस प्रतिस्पर्धात्मक फायदा लाना है।

हवाले

“इस स्मॉल बिजनेस मंथ में हमें हमारे उन्हें लोकल उद्यमियों को सम्मानित करने पर गर्व है, जो करेक्टर, नौकरियां, प्रतिस्पर्धा और खुशहाली सहित हमारी कम्युनिटी में बहुत कुछ लाते हैं। मैं ब्रैम्पटन के सभी निवासियों से निवेदन करता हूं कि वे न सिर्फ अक्टूबर में बल्कि हमेशा, हमारे लोकल छोटे कारोबारियों का जशन मनाएं और उनकी हिमायत करें, विशेषकर कोविड-19 महामारी के कारण लगातार बंद होने के बाद। इसमें हम सभी एकजुट हैं।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“छोटे कारोबारियों पर कोविड-19 महामारी का बहुत बड़ा असर हुआ है और स्मॉल बिजनेस मंथ हमें ब्रैम्पटन में उन लोकल कारोबारियों को सम्मानित करने का शानदार मौका प्रदान करता है, जिन्होंने पिछले महीनों में बहुत ज़्यादा स्थिरता और प्रवीणता दर्शाई है। मैं सभी छोटे कारोबारियों को सलाह देता हूं कि वे पूरे अक्टूबर में बेक के द्वारा प्रदान की जा रही प्रोग्रामिंग का लाभ उठाएं। मैं बिजनेस माइलस्टोन प्रोग्राम के द्वारा उनकी कहानियां सुनने के लिए उत्साहित हूं।”

- मार्टिन मेडेइरोस (Martin Medeiros), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 3 और 4; चेयर, इकोनॉमिक डिवेलपमेंट, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“छोटे कारोबारी हमारी कम्युनिटी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और वे हमारी लोकल अर्थव्यवस्था की सफलता के लिए जरूरी हैं। इस स्मॉल बिजनेस मंथ में, ब्रैम्पटन में उनके बहुमूल्य योगदानों का जशन मनाने के लिए हमारे साथ जुड़ें और लोकल को स्पोर्ट जरूर करें।”

- *पॉल विसेंट (Paul Vicente), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5; वाइस-चेयर, इकोनॉमिक डिवेलपमेंट, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“सिटी ऑफ ब्रैम्पटन में स्टाफ शानदार कम्युनिटी और लोकल कारोबारियों की हिमायत करने के लिए प्रतिबद्ध है क्योंकि हम कोविड-19 महामारी से इकट्ठे मिलकर बहाली की ओर बढ़ रहे हैं। हमारी इकोनॉमिक डिवेलपमेंट टीम, पूरा अक्टूबर हमारे लोकल छोटे कारोबारियों के लिए प्रोग्रामिंग प्रदान करने और स्मॉल बिजनेस मंथ के सम्मान में स्मॉल बिजनेस माइलस्टोन प्रोग्राम की शुरुआत करने के लिए उत्साहित है।”

- *डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 700,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

प्रभजोत कैथ (Prabhjot Kainth)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca